



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 356]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 1977/श्रावण 21, 1899

No 356]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 1977/SRAVANA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 12th August 1977

S.O. 617(E)/18AA/IDRA/77—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that the industrial undertaking known as Messrs Indore Textiles Limited, Ujjain, Madhya Pradesh, has been closed for a period exceeding three months and such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, Cotton Textile industry, and that the financial condition of the company owning the industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of such undertaking are such that it is possible to re-start the undertaking and such re-starting is necessary in the interests of the general public,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Madhya Pradesh State Textile Corporation Limited (hereinafter referred to as the "Authorised Person") to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (1) The authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government
- (2) The authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette

(3) The Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier, if it considers it necessary to do so

2 This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F 3(5)/77-CUC]

G. N MEHRA, Jt. Secy.

### उद्योग मंत्रालय

### (औद्योगिक विकास विभाग)

#### आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1977

का० प्रा० 617(अ) 18एए/आई डी आर ए 77—उस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जो केन्द्रीय सरकार के कब्जे में है, उसका यह समाधान हो गया है कि मैसर्स इंदोर टैक्स-टार्गैन्स लिमिटेड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, तीन मास से अधिक की अवधि के लिए बढ़ कर दिया गया है और इस प्रकार की बड़ी संबंधित अनुसूचित उद्योग, अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग के हित के प्रतिकूल है और उक्त औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कंपनी की वित्तीय दशा तथा ऐसे उपक्रम के मशीनों और मशीनों की दशा ऐसी है कि उपक्रम का पुनः चालू करना संभव है तथा उसका इस प्रकार से चालू किया जाना लोकहित में आवश्यक है,

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश स्टेट टैक्सटॉइल कारपोरेशन लिमिटेड को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) उक्त समस्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिए, इस आदेश द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात्—

- (1) प्राधिकृत व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा।
- (2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को समय से पूर्व पर्यवसित कर सकती है।

2 यह आदेश इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आरम्भ पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[स० फा० 3(5) 77-सीयूसी]

जी० एन० मेहरा, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मद्वित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977